

Daily Editorial Analysis



QUOTIDIEN ■ MARDI 18 JUIN 1996

Paris CAC 40 + 0,06 %	New York DJ - 0,08 %
Dollar Paris 5,1535 FF	POUR 6

"मानवीय गलियारे" (Humanitarian Corridors)

जैसे ही युद्ध एक संभावित घातक चरण में प्रवेश करता है तो नागरिकों द्वारा सुरक्षा और शरण के लिये देश छोड़ने का प्रयास किया जाता है, अतः नागरिक या जन-धन के नुकसान को कम करने के लिये मानवीय उपाय किये जाने चाहिये, हाल ही में रूस द्वारा नागरिकों के लिये "मानवीय गलियारे" (Humanitarian Corridors) प्रदान करने हेतु रूस-यूक्रेन युद्ध में एक अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की गई है।

मानवीय गलियारे:

- संयुक्त राष्ट्र मानवीय गलियारों को सशस्त्र संघर्ष की अस्थायी समाप्ति के कई संभावित रूपों में से एक मानता है।
- ये एक विशिष्ट क्षेत्र में और एक विशिष्ट समय के लिये विसैन्यीकृत क्षेत्र होते हैं जिस पर एक सशस्त्र संघर्ष के दोनों पक्ष सहमत होते हैं।



HUMANITARIAN CORRIDORS

मानवीय गलियारे की आवश्यकता:

- इन गलियारों के माध्यम से, संघर्ष के क्षेत्रों में भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है, या नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सकता है।
- जब शहरों की घेराबंदी की जा रही हो और आबादी को बुनियादी खाद्य आपूर्ति, बिजली तथा पानी जैसी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है, तो इस तरह के गलियारे का प्रयोग आवश्यक हो जाता है।
- ज्यादातर मामलों में, मानवीय गलियारों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा बातचीत की जाती है। कभी-कभी उन्हें स्थानीय समूहों द्वारा भी स्थापित किया जाता है।

- चूंकि सभी दलों को गलियारों को स्थापित करने के लिए सभी दलों का सहमत होना आवश्यक है, इसलिए गलियारों को स्थापित करने में सैन्य या राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा बना रहता है। उदाहरण के लिए, गलियारों का इस्तेमाल हथियारों और ईंधन की तस्करी के लिए घिरे शहरों में किया जा सकता है।
- दूसरी ओर, मानवीय गलियारे का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों, गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों द्वारा उन विवादित क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है जहां युद्ध अपराध किए जा रहे हैं।

यूक्रेन में स्थापित कॉरिडोर:

- पूर्वी यूक्रेन में, 5 मार्च को पांच घंटे का युद्धविराम होना था, जिससे लगभग 200,000 को मारियुपोल और वोल्नोवाखा छोड़ने की अनुमति मिली। लेकिन पहल कुछ घंटों के बाद विफल हो गई, जहां प्रशासन ने कहा कि निकासी को "सुरक्षा कारणों से स्थगित कर दिया गया था" क्योंकि रूसी सैनिकों ने आसपास बमबारी जारी रखी थी।
- रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मारियुपोल और वोल्नोवाखा के पास स्थापित गलियारों का इस्तेमाल यूक्रेन द्वारा नहीं किया गया जबकि यूक्रेन ने कहा कि रूस ने गलियारे के अपने वादे को पूरा नहीं किया और 19 मानवीय सहायता वाहनों को अंदर नहीं जाने दिया गया।

मानवीय गलियारे की अभिगम्यता:

- मानवीय गलियारों तक पहुंच संघर्ष के पक्षों द्वारा निर्धारित की जाती है।
- यह आमतौर पर तटस्थ अभिनेताओं, संयुक्त राष्ट्र या रेड क्रॉस जैसे सहायता संगठनों तक सीमित है।
- संबंधित देश समय सीमा, क्षेत्र और परिवहन के साधन - ट्रक, बस या विमान - को गलियारे का उपयोग करने की अनुमति भी निर्धारित करते हैं।
- दुर्लभ मामलों में, मानवीय गलियारों का आयोजन केवल एक पक्ष द्वारा संघर्ष के लिए किया जाता है। 1948-1949 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी के बाद अमेरिकी एयरलिफ्ट के साथ ऐसा हुआ।

मानवीय गलियारे का प्रयोग और कहाँ किया गया है:

20वीं सदी के मध्य से मानवीय गलियारे स्थापित किए गए हैं उदाहरण के लिए-

- 1938 से 1939 तक तथाकथित किंडरट्रांसपोर्ट के दौरान, यहूदी बच्चों को नाजी-नियंत्रित क्षेत्रों से यूनाइटेड किंगडम ले जाया गया।
- 1992-1995 के दौरान साराजेवो, बोस्निया की घेराबंदी और 2018 में घोउटा, सीरिया की निकासी।
- मानवीय गलियारों का उपयोग सीरियाई गृहयुद्ध, लीबिया के गृहयुद्ध और गाजा युद्ध तथा ऐसे अन्य संघर्ष क्षेत्रों में अक्सर किया जाता रहा है।
- हालाँकि, ऐसे कई युद्ध और संघर्ष हैं जहाँ नागरिक गलियारों की माँग या लड़ाई में विराम व्यर्थ रहा है। उदाहरण के लिए, यमन में चल रहे युद्ध में संयुक्त राष्ट्र अब तक अपनी वार्ताओं में विफल रहा है।

byjusexamprep.com